



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 19 जनवरी, 2023 ई०
(पौष 29, 1944 शक संवत्)

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय), हमीरपुर

संख्या 479/जि०नि०का०(पं० एवं न०नि०)ह०/त्रि०पं० रिक्त पद निर्वा०, 2023
दिनांक : 19 जनवरी, 2023 ई०

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग के पत्र संख्या-1/263580/2023/33-3099/835/2022-3, दिनांक 18 जनवरी, 2023 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-243ट सहपठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 264ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-27/रा०नि०आ०अनु०-3/28-22/पं० उप निर्वा०/2023 दिनांक 18 जनवरी, 2023 में निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करते हुए क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशन के क्रम में मैं, डॉ० चन्द्र भूषण, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं० एवं न०नि०), हमीरपुर एतद्वारा नीचे सारणी में दिये गये चुनाव कार्यक्रम के अनुसार निम्न सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद पर उप निर्वाचन कराये जाने का निर्देश देता हूँ :-

समय-सारिणी

नाम निर्देशन-पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
24 जनवरी, 2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	25 जनवरी, 2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	27 जनवरी, 2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	27 जनवरी, 2023 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	09 फरवरी, 2023 (प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	10 फरवरी, 2023 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

रिक्त स्थान/पद का आरक्षण सहित विवरण

क्रमांक	विकास खण्ड	रिक्त पद का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	आरक्षण की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	राठ	सदस्य क्षेत्र पंचायत	46-टोलारावत द्वितीय	ग्राम पंचायत टोला रावत के वार्ड संख्या 10 से 15 तक	महिला
2	गोहाण्ड	सदस्य क्षेत्र पंचायत	09-इटैलिया बाजा, बड़ाखरका	ग्राम पंचायत इटैलिया बाजा के वार्ड संख्या 14 से 15 तक एवं ग्राम पंचायत बड़ाखरका के वार्ड संख्या 01 से 11 तक	अन्य बिछड़ा वर्ग

2-उक्त क्षेत्र पंचायतों सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का पूर्ण विवरण देते हुये निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा और सम्बन्धित गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।

3-उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन-पत्रों का विक्रय, नामांकन-पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिये क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा।

4-उपर्युक्त चुनाव समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5-संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराये जायेंगे।

डॉ० चन्द्र भूषण,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
हमीरपुर।